



VIDEO

Play

# श्री मुख्य वाणी गायन



## साथ जी सोभा देखिए

साथ जी सोभा देखिए, करे कुरबानी आतम ।  
वार डारों नख सिख लों, ऊपर धाम धनी खसम ॥

करी कुरबानी तिन कारने, परीछा सबकी होए ।  
करे कुरबानी जुदे जुदे, सांच झूठ ए दोए ॥

कुरबानी को नाम सुन, मोमिन उलसत अंग ।  
पीछे हुते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग ॥

मोमिन बड़ा मरातबा, सो अब होसी जाहेर ।  
छिपे हुते दुनियां मिने, सो निकस आए बाहेर ॥

जिन दिस मेरा पिउ बसे, तिन दिस पर होऊं कुरबान ।  
रोम रोम नख सिख लो, वार डारों जीव सों प्रान ॥

सूरातन सखियन का, मुख थें कहयो न जाए ।  
महामत कहें सो समया, निपट निकट पोहोच्या आए ॥

